



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 444 राँची, बुधवार, 22 जेष्ठ, 1941 (श०)
12 जून, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

6 जून, 2019

संख्या-5/आरोप-1-94/2018-2568 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री भोलानाथ लागुरी, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-प० सिंहभूम), तत्कालीन जिला अवर निर्वाचन पदाधिकारी, चतरा-सह-प्रभारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी, चतरा के विरुद्ध वरीय पदाधिकारी को गलत एवं भ्रामक प्रतिवेदन समर्पित करने, वित्तीय नियमों का उल्लंघन और दुर्व्यय करते हुए सरकार को आर्थिक क्षति पहुँचाने, स्वेच्छाचारिता बरतते हुए आपूतिकर्त्ता विशेष का चयन कर अनुचित लाभ पहुँचाने तथा सरकारी धन का दुरुपयोग करने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-365/स्था०, दिनांक 06.06.2018 द्वारा गठित प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. उपायुक्त, चतरा द्वारा गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' पर विभागीय पत्रांक-6191 दिनांक-13.08.2018 द्वारा श्री लागुरी से स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री लागुरी द्वारा दिनांक-28.01.2019 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। विभागीय पत्रांक-2025 दिनांक-06.03.19 द्वारा श्री लागुरी के स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, चतरा से श्री मंतव्य की मांग की गयी जो अब तक अप्राप्त है।

3. श्री लागुरी के विरुद्ध गठित आरोप वित्तीय अनियमितता से संबंधित है। अतः श्री लागुरी के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

4. तदनुसार एतद् द्वारा श्री लागुरी को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

5. श्री लागुरी द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

6. श्री लागुरी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जिला पंचायती राज पदाधिकारी, चतरा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

7. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	BHOLA NATH LAGURI 110091197637	श्री भोलानाथ लागुरी, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-प० सिंहभूम), तत्कालीन जिला अवर निर्वाचन पदाधिकारी, चतरा-सह-प्रभारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी, चतरा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
